

## भिवानी में नकली ऑक्सीमीटर बेचने के मामले का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 500 रुपये थी कीमत



Publish Date: Mon, 24 May 2021 11:30 PM (IST) Author: **Manoj Kumar**

शहर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने मानान पाना निवासी युवक प्रवीण को पकड़ कर नकली ऑक्सीमीटर बेचने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपित से 200 ऑक्सीमीटर बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

भिवानी, जेएनएन। भिवानी जिला में रेमडिसीविर के नकली इंजेक्शन के कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद अब बड़े पैमाने पर नकली ऑक्सीमीटर भी बेचने का मामला सामने आया है। शहर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने मानान पाना निवासी युवक प्रवीण को पकड़ कर नकली ऑक्सीमीटर बेचने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपित से 200 ऑक्सीमीटर बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिए हैं।

आरोपित ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि वह यह नकली ऑक्सीमीटर दिल्ली व चंडीगढ़ से मंगवाता था। उसके बाद सस्ते रेट पर भिवानी में बेचता था। गांव फूलपुरा निवासी कुलदीप ने थाना शहर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने पुलिस को बताया कि उसने एक व्यक्ति से ऑक्सीमीटर लेने के लिए संपर्क किया था। ऑक्सीमीटर बेचने वाले व्यक्ति ने कुलदीप

को 500-500 में दो ऑक्सीमीटर दिए थे। ऑक्सीमीटर को चेक करने पर ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दिखा रहा था। इसकी शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। रविवार शाम को आम जनता को धोखा देकर नकली ऑक्सीमीटर बेचने के मामले में थाना शहर भिवानी के उपनिरीक्षक भूषण कुमार ने अपनी टीम के साथ नजदीक जोगी वाला मंदिर भिवानी के पास से एक आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

### आरोपित से 200 ऑक्सीमीटर किए बरामद

शहर थाना पुलिस ने आरोपित मानान पाना निवासी की पहचान प्रवीण को काबू किया। मौके पर उससे चार ऑक्सीमीटर बरामद हुए थे। उसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके घर से 196 ऑक्सीमीटर और बरामद किए गए। पुलिस द्वारा आरोपित से एक हजार रुपये की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपित से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

### दिल्ली व चंडीगढ़ से मंगवाता था ऑक्सीमीटर

प्राथमिक पूछताछ में आरोपित ने बताया कि यह ऑक्सीमीटर वह दिल्ली व चंडीगढ़ से मंगवाया करता था। पुलिस द्वारा आरोपित को न्यायालय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है रिमांड अवधि के दौरान आरोपित से ऑक्सीमीटर खरीदने व अन्य जगह सप्लाई करने के बारे में गहनता से पूछताछ जारी है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/hisar-police-busted-case-of-selling-fake-oximeter-in-bhiwani-and-price-was-rs500-21674066.html>